

समाहरणालय पूर्वी चम्पारण मोतिहारी  
(जिला स्थापना)

पत्रांक 332 / दिनांक 19.12.13 /

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण मोतिहारी।

सेवा में,

सभी कार्यालय प्रधान,  
सभी लोक उपक्रमों यथा बोर्ड सोसाईटी, पार्श्व निगम।

विषय:- चल- अचल सम्पति एवं दायित्वों की विवरणी समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरकार के सभी कर्मियों को चल-अचल सम्पति एवं दायित्वों की विवरणी समर्पित करना है एवं वेबसाईट के माध्यम से सर्वजनिक किया जाना है। इसके प्रथम चरण में समूह क, ख, एवं ग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची विहित प्रपत्र में सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाना है।

अतः अनुरोध है कि निम्नांकित प्रपत्र में समूह क, ख एवं ग के पदाधिकारी / कर्मचारी की त्रुटि रहित विवरण सूची साफ्ट कॉपी Excel-सीट (सी0डी0) एवं हार्ड कॉपी में विहित प्रपत्र में दिनांक 31.12.2013 तक जिला स्थापना शाखा, समाहरणालय मोतिहारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे। प्रपत्र में सभी सूचनाएँ अग्रेजी के बड़े अक्षरों में अंकित करेंगे, साथ ही निम्न विन्दुओं का अनुपालन ध्यान में रखते हुए चल-अचल सम्पति एवं दायित्वों की विवरणी समर्पित करेंगे।

1. निम्नांकित प्रपत्र में विवरणी दिनांक 31.12.2013 तक निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उसे साफ्ट वेयर में ससमय निबंधित किया जा सके। ज्ञातव्य हो कि किसी कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम सूची में नहीं रहने पर संपूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
2. चल-अचल सम्पति एवं दायित्वों की विवरणी ए-4 साईज सफेद रंग के कागज पर ही प्राप्त किया जायेगा।
3. विवरणी कम्प्युटर टंकित हो तथा हस्तलिखित एवं मैनुअल टाईप डाटा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. विवरणी पृष्ठ के एक ही तरफ टंकित हो, ताकि डाटा स्कैनिंग में कठिनाई न हो।
5. विवरणी के प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित पदाधिकारी/कर्मी का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है तथा सभी कॉलम पूर्ण रूपेण भरे गये हो।
6. सूची के अनुरूप सभी कर्मियों का सम्पति विवरणी विहित प्रपत्र में दिनांक 15.01.2014 तक भेजना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उसे अपलोड किया जा सके।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपलोड किए गए विवरणी का जॉच आई0टी0 प्रबंधक के कार्यालय मोतिहारी में करेंगे।
8. उक्त आशय का प्रमाण-पत्र देंगे कि सभी पदाधिकारी/कर्मचारियों का विवरणी साँफ्ट वेयर में अपलोड है, तथा त्रुटि रहित है एवं किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी का विवरणी अपलोड करना शेष नहीं है।

प्रपत्र

Department/ Disriect	Name of the PSU	DDO Code	Treasury	DDO Designation	Name of Employee	Employee's Designation	Employee's Department
1	2	3	4	5	6	7	8

Name of the office	GPF/CPF/ PRAN No	Gender	Date of Birth DD/MM/YYYY	Cadre (for eg. BAS- Bihar administrative Services)	Class	Home District
9	10	11	12	13	14	15

विश्वासभाजन

*Ruler*  
*fate*

जिलाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।